

M.M.G.S.Y. S.C.

M.B.No - 546  
21.22

**KHERA BASA T.O T.O 4**  
**Schedule XLV Form No. 134.**

(60) **KHERA BASA T.O T.O 4**

YARD. MINI DIVISION

30' 9" 30' 9" SUB-DIVISION

**Measurement Book**

**ABHILASHA ENGINEERING PRIVATE  
LIMITED**

प्रमाणित किया गया है कि इस  
मापी पुस्तक में सभीं दारा  
अंकित पृष्ठ - 100 (स्कॉर्चर) परन्ते  
हैं जिस सहायता अभियंता यामीन  
कार्ड विभाग, कार्ड अवृ प्रमाणित  
बोलादौर कर निर्णय किया गया  
है।

*Murali*  
Executive Engineer  
R.W.D. Works Div.  
~~B.S.K. 27/2/2002~~  
~~25/2/2002 Gogoi~~

Sch. XLV - Form No. 134

पुस्तक विभाग DIVISION

सिंहपुरा, बोलादौर SUB-DIVISION

Re-Issued M.B. No-546 from Page No-18  
to A.E. R.W.D. Works Sub division-Boldaure.

Measurement Book *E.G.*  
*23/3/2003*

546 No.

Name of Officer \_\_\_\_\_

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement  
of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road - Construction					
of Road from Kharwa					
Besa to T.O.S.					
Agency - Abhilasha Engicom					
Header - MM ASY 5C					
Agreement No./Date - 11538/2021-22					
Date of Start - 20/02/2021					

Date of Completion - 19/02/2022

### Record Measurement

- ① Setting out Pillar
- ② Working Bench Mark P/16  
P.S - 07 abe
- ③ Reference Pillar
- A level off - 4 m
- ④ Cleaning & marking of road line of abe 2
- 2x100m x 3.5m = 7700.m<sup>2</sup>

$$= 0.77 \text{ Ha}$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(9) Providing brickwork masonry work (in m <sup>3</sup> )					
(1:4) all comp. do -					
Qty. width 7' M. D. by 15					
Area 42.00 x 9.81 m <sup>2</sup>					
Q. 57.56.56 m <sup>3</sup> = 528510 =					
(10) Providing earth laying					
a) R.R.C. Hummock					
N.P. 3 = r. do					
Qty. width 7' M. D. by 16					
Area 42.00 x 22.50 m <sup>2</sup>					
Q. 95.59.59 m <sup>3</sup> = 89091 =					
(11) Plastering (orthocast) masonry C.M. 1:4					
on brick work -					
Qty. width 7' M. D. by 16					
Area 42.00 x 22.50 m <sup>2</sup>					
Q. 169.55 m <sup>2</sup> = 34003 =					
(12) providing 15 mm thick Cement rendering -					
including curv.					
Qty. width 7' M. D. by 16					
Area 42.00 x 42.68 m <sup>2</sup>					
Q. 44.82 m <sup>2</sup> = 1912 =					
Total = 2876164 =					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF B - 9876164 =
Add 12). G.B.T + H.L.C. -					373901 = 0
Add. S.F. Roy. -					30142 = 0
					3230207 =
Lesser 7.50). Below -					946016 = 0
					= 3034171 =
less 2nd on A & D. -					828928 = 0
					Net B - 2205263 =
OP	8				(7) m <sup>3</sup> )
Stone	61015.25 m <sup>3</sup>	111108	106		9-11-2023
					T.E

material statement

- (1) Earthwork - 2624.04 m<sup>3</sup> ~~1.50~~ ~~31528.00~~
- (2) Stone aggregate 610525 m<sup>3</sup> x 516.42 = ~~31528.00~~ ~~31528.00~~
- 534 mm to 9.5 mm - 390.73 P 516.42 X 10% = 2017.8
- 9.5 mm to 2.36 mm - 156.29 P 411.23 X 10% = 6429
- 2.36 mm below - 234.44 P 150.80 X 10% = 3535
- Total. 30142 =

Roy

FW - 2624.04 x 23 = 86554 = 0	(7) m <sup>3</sup> )
Stone	
61015.25 m <sup>3</sup>	
390.73 m <sup>3</sup>	
156.29 m <sup>3</sup> x 15.0 = 11363.2 =	
11363.2 = 95166.00	
	9-11-2023
	T.E
Sand	
234.44 x 15.0 = 25392.00	
Roj. 0.00	
	S.F. = 10%
	91342 = 0
	Stone m <sup>3</sup> = 31528.00
	20178.00
	6429 = 0

S.F. = 10%